

EK BHARATH SHRESTH BHARATH

Title: Poetry Contest

Date: 30/06/2020



The poster is set against a textured, parchment-like background. At the top left is the MLR Institute Of Technology logo, which includes a green gear icon and the text 'MLR Institute Of Technology'. Below this, smaller text reads '(UGC Autonomous and Approved by AICTE - New Delhi), NE3 and NAAC accredited, nif ranked' and 'EAMCET/ECET/ICET/PGCET: MLID www.mlrinstitutions.ac.in'. At the top right is the 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' logo, featuring a circular emblem with a tree and the text 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'. The central text reads 'Ek Bharat Shrestha Bharat' in a bold, sans-serif font, followed by 'Poetry Contest' in a large, elegant cursive script. A quill pen is positioned between the words 'Poetry' and 'Contest'. Below the title, the text 'LAST DATE FOR SUBMISSION 30TH OF JUNE 2020 - 5.00 PM I.S.T' is written in a bold, sans-serif font, with 'EMAIL US : ebsb@mlrinstitutions.ac.in' underneath. At the bottom left, it says 'Faculty co-ordinator Mrs.PAVANI, Asst.Prof.Dept.of MBA'. At the bottom right, it says 'Student co-ordinators PRASHANTH & SANJANA'. In the center bottom, there is a logo for 'Came club' with a colorful geometric design.

A poetry contest was conducted for the students of Maharishi Markandeshwar University, Mullana, the pairing state. The students were informed to submit the poetry on 'Ek Bharat Shreshtha Bharat'. Some students sent their poems in hindi language while some opted for english. It was felt that Poetry gave students a healthy outlet for surging emotions.

एक भारत श्रेष्ठ भारत

युग पुरुषों का सपना भारत
विश्व गुरु ही अपना भारत
सपने इतने झुलसे क्यों हैं
हम सब इतने उलझे क्यों हैं।
रिश्ते जो हीं, गर्हे कसे लें
आओ मीठा उन्हे बनाये
कैसर की मटकी माटी में
हल वाली सुंदर धापी में
केवल सै औषम ले आये
इस ईद सैवयां मिलकर खाए

अकृणाचल का सूरज चल शक
कच्छ के सिंधु में व्यास बुझारु
पीख पीख सागर की लहरें
हम सब सै बस यह जोहरारु
ग्रीक से मैक मीहन तक
जाहे ही कौडु भी सरहद
धरती से तारों की हद तक
वेखोंक तिरंगा लहरांउ
अ तुझको अब झुकवा भारत
विश्व गुरु ही अपना भारत।

MARVELOUS INDIA

A perfect blend of dignity, ethnicity & culture
Nagaland in east is famous for spectacular nature
A country whose beauty lies in its diversity
and splendid biodiversity

Motherland that has Kashmir - "Heaven on Earth"
whose lakes & greenery make people feel a kind of nirvana
Manipur is known for its natural vegetation
Himachal Pradesh is known as summer destination

Sikkim is famous for Buddhist monasteries
forests of Madhya Pradesh & Chattisgarh are full of berries
Mizoram is known for its ancient tribes
where people pick up on some positive vibes

U.P & Bihar have their own historical values
Goa is famous for its wedding venues
Beside the manifold diversity, language & religion
One can distinguish life from Gujarat to Kibithu &
from Himalayas to Cape Comorin

But then also people share customs and traditions
in similarity
That's why India has versatility in its
culture with unity

- Akshdeep Kaur
Bsc. Dietetics & Nutrition IV
MMDU Mullana (HR)

द्विषिक - जीवन

जीवन हैं, अनमोल रत्न,
करो न तुम इसे खत्म ।

जीवन की ये नैश्या,
बढ़ती जाएँ मैया,
न शकना है, न शकना है,
सतत चलना है, सतत चलना है,
जीवन है अनमोल रत्न,
करो न तुम इसे खत्म ।

हाँ, मिले हैं कुछ दुखः,
तो जरूर मिलेंगे सुख,
बिल्कुल न धबराओ तुम,
बिल्कुल न पड़ताओ तुम,
जीवन है अनमोल रत्न,
करो न तुम इसे खत्म ।

सफलता है तुम्हें चुनोती देगी
असफलता है तुम्हें तजूरवा देगी,
ए मानव तुम तनिक भी न चबराना
ये रास्ता तुम्हें खुदा ए मंजिलें देगी ॥
जीवन है अनमोल रत्न,
करो न तुम इसे खत्म ॥

NAME - GOLU KUMAR
B.Sc(HHA)II
MMICT & BM(HM)
MMDU, MULLANA,
AMBALA, HARYANA,
(131207)